

तुरंत रिलीज के लिए

ए.एम.ओ. 2022 वार्षिक जनरल मीटिंग और कान्फ्रेंस में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन:

ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य और भविष्य की खुशहाली के लिए हिमायत

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 अगस्त, 2022) – 14 से 17 अगस्त तक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल, 2022 एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल्टीज (ए.एम.ओ.) (2022 Association of Municipalities (AMO) वार्षिक जनरल मीटिंग और कान्फ्रेंस में हिस्सा लेगा। मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) के नेतृत्व में, काउंसिल के मेम्बर और सिटी के अधिकारी, ब्रैम्पटन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पूरे प्रांत में, सरकारी मंत्रियों, अधिकारियों और मुख्य स्टैकहोल्डर्स के साथ जुड़ेंगे।

चूंकि सिटी लगातार कोविड-19 (COVID-19) महामारी से बहाली की ओर बढ़ रही है और बेहतर तथा अधिक मजबूत ब्रैम्पटन बनाने के लिए काम कर रही है, प्राथमिकताओं में उजागर होगा, स्वस्थ, सम्पन्न और खुशहाल कम्युनिटी सुनिश्चित करना। इसमें शामिल है:

- **बेहतर ट्रांसपोर्टेशन बनाना** – मौजूदा सेवा को कायम रखना, स्ट्रैटजिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करना और हायर ऑर्डर ट्रांज़िट का विस्तार करना।
- **हेल्थ केयर में सुधार करना** – कम्युनिटी की मौजूदा और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, ब्रैम्पटन के हेल्थ केयर अंतर को खत्म करने हेतु तुरंत फंडिंग प्राप्त करना।
- **अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना** – सिटी के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी परिवर्तन की हिमायत करना, उच्च-संभावना वाले निवेशों को आकर्षित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्दी निपटाना और भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- **जलवायु कार्रवाई और स्थिरता दर्शाना** – जलवायु कार्रवाई संबंधी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना, जिनमें शामिल हैं, ट्रांज़िट और सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन अवसर बढ़ाना, ग्रीनहाउस गैस निकालियों को कम करना, ऊर्जा क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना और कुदरती जगहों तथा अर्बन ट्री कैनोपी को बहाल करना।
- **अधिक हाउसिंग विकल्प प्रदान करना** – यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तरीके से हाउसिंग पर ध्यान देना कि निवासियों को सस्ते घर मिल पाएं, अधिक हाउसिंग विकल्प पेश करके और हाउसिंग सप्लाइ के सही प्रकारों को लिए उत्साहित करके हाउसिंग किफायत में सुधार करना।

सिटी की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

हवाले

“ब्रैम्पटन, कॅनेडा के 25 सबसे बड़े शहरों में से सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला शहर है और जैसे कि हम कोविड-19 महामारी से सीखे गए सबकों पर लगातार अमल कर रहे हैं, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के अन्य महकमों के साथ मजबूत और प्रभावी साझेदारियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम सम्पन्न और खुशहाल कम्युनिटी हैं। मैं प्रांत की सहायता, जो उसने इस टर्म ऑफ

काउंसिल के दौरान दर्शाई है और हमारे शहर में सुधार करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं ब्रैम्पटन की विशाल क्षमता का लाभ लेने के लिए, उनके साथ और सभी साझेदारों के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का स्टाफ, टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटी: ब्रैम्पटन एक अच्छी तरह संचालित शहर है, की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए यह एडवोकेसी अवसरों पर ध्यान दे रहा है और उन प्रोजेक्ट्स तथा पहलकदमियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे सरकारी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो हमारे निवासियों के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। जो काम हम ओनटैरियो प्रांत के साथ मिलकर लगातार कर रहे हैं, वह हमारे शहर के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कान्फ्रेंस के दौरान हमारे सहकर्मियों से जुड़ने और हमारी कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा करने के लिए उत्साहित हैं।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca